

भारत सरकार
वित्तमंत्रालय
वित्तीयसेवाएं वभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्नसंख्या *561

(जसिका उत्तर06 अप्रैल,2018/16 चैत्र,1940 (शक) को दिया जाना है)

गैर-नष्पादनकारी आस्तियां

561. श्रीपरेश रावल:

श्रीडी.एस. राठौड:

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास वर्ष 2005 से 2014 तक का गैर-नष्पादनकारी आस्तियों से संबंधित कोई डाटा है और यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) वर्ष 2014 से 2018 की अवधि के दौरान गैर-नष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीशवि प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'गैर-नष्पिपादनकारी आसूतयिं' के संबंघ में शरीपरेश रावल और शरीडी. एस. राठीड द्वारा पूछे गए 06 अप्रैल, 2018 के लोक सभा तारांकति प्रश्नसंख्या *561 के भाग (क) और (ख) के उत्तरमें उल्लखिति वविरण।

(क) और (ख): अनुसूचति वाणजियकि बैंकों (एससीबी) के सकल एनपीए के आंकडे नीचे दएि गए हैं:

राशिकिरोड रुपए में

मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	मार्च-08	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11
58,023	51,242	49,996	55,694	68,213	81,805	94,117

राशिकिरोड रुपए में

मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	दसिं.17
1,37,096	1,83,848	2,51,054	3,09,399	5,66,247	7,28,740	8,31,141

आरबीआई ने यह सूचति कयिा है कि आंकडों से यह देखा जा सकता है कि वरष 2015-16 के दौरान एनपीए में तीवर वृद्धि (एनपीए में 125 प्रतशितकी नई वृद्धि) हुई है। ऐसा मुखयतः हाल ही में आरंभ कएि गए बडे उधारकर्ता डाटाबेस (सीआरआईएलसी), जो पूरी प्रणाल में कसिी उधारकर्ताकी उपसूचतिकिो दर्शाता है, की सहायता से आरबीआई द्वारा आरंभ की गई आसूति गुणवत्तासमीक्षा (एक्यूआर) के कारण हुआ है और इस प्रकार एनपीए की बेहतर पहचान संभव हो पाई है, जसिकी पहचान बैंक द्वारा अभी तक नहीं की गई थी।

एनपीए में नई वृद्धि अरूथात संवर्धनात्मक एनपीए में मार्च 2017 को समाप्त वगित वत्तितीय वरष से कमी (पछिले वरषकी तुलना में 6.4 प्रतशितकी कमी) आ रही है। वत्तितीय वरष 2017-18 में, दसिम्बर 2017 तक इसमें वरष-दर-वरष आधार पर 1.8 प्रतशितकी कमी आई है।

आरबीआई ने बडे उधारकर्ताओं के एनपीए का (सीआरआईएलसी डाटाबेस को सूचति बडे उधारकर्ताओं के आंकडों के आधार पर) अस्थायी वशिलेषण कयिा था। वशिलेषण के अनुसार सतिम्बर 2014 तक बडे उधारकर्ताओं को सूचित नए ऋण के संबंघ में वत्तिपोषतिअग्रमि बकाया राशि सभी बडे उधारकर्ताओं के वत्तिपोषतिअग्रमि का 66.6 प्रतशित थी जबकि ऐसे उधारकर्ताओं के संबंघ में सतिम्बर 2017 को समाप्त तमिाही में एनपीए अनुपात 20.6 प्रतशित था।

दूसरी ओर, सतिम्बर 2014 के बाद की अवधि के संबंघ में वत्तिपोषतिअग्रमि का भाग 33.4 प्रतशित तथा ऐसे उधारकर्ताओं के संबंघ में एनपीए का अनुपात 5.3 प्रतशित है।
